

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 396] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6 1976/भाद्र 15, 1898

No. 396] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 1976/BHADRA 15, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

CORRIGENDA

New Delhi, the 31st August 1976

S.O. 591(E).—In English version of Order No. S.O. 542(E) dated 9-8-76 of the Government of India in the Ministry of Law Justice & Company Affairs (Department of Company Affairs) appearing in Part-II, Section 3, sub section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 12th August 1976 the following amendments may be made:—

- (i) On page 1655, paragraph 7(6) (c) line 2, read the word "any" for the word "may"
- (ii) On page 1656, paragraph 12, line 3, read the year "1975" for the year "1976".

[No. 24/7/75-CL-III]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1976

क्र० आ० 592(ख).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 12 अगस्त, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश सं० 542 (असा०) तारीख 9-8-76 के हिन्दी पाठ में पृष्ठ 1661 पर पैरा 12 को वर्ष "1975" पढ़ें।

[सं० 24/7/75-सी० एल० III]

S.O. 593(E).—In English version of order No. 543(E) dated 9-8-76 of the Government of India in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Department of Company Affairs) appearing in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 12th August, 1976 read the following:—

(i) On page 1663 paragraph 7(3) line 4 read the word "or" for the word "of" after the word "Directors".

(ii) On page 1664 paragraph 12 line 3 read the year "1975" for the year "1976".

[No. 24/7/75-CL-III]

P. B. MENON, Jt. Secy.

क्र० आ० 594(ख).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 12 अगस्त, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश सं० 543 (असा०) तारीख 9-8-76 के हिन्दी पाठ में पृष्ठ 1669 पर पैरा 12 की पंक्ति 2 में वर्ष "1976" के स्थान पर वर्ष "1975" पढ़ें।

[सं० 24/7/75-सी० एल० III]

पी० बी० मेनन, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976